

## नकली लेबल लगाकर कर शराब बेचने के दो और आरोपित गिरफ्तार

Publish Date: Sun, 07 Mar 2021 05:47 AM (IST) Author: **Jagran**

पुलिस की अपराध शाखा दो ने नकली लेबल लगा कर शराब बेचने के दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित शाहाबाद के स्टेशन माजरी निवासी दीप चंद उर्फ दीपा व कैथल के गांव पाडला निवासी जसबीर सिंह जस्सा को अदालत में पेश किया।

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : पुलिस की अपराध शाखा दो ने नकली लेबल लगा कर शराब बेचने के दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित शाहाबाद के स्टेशन माजरी निवासी दीप चंद उर्फ दीपा व कैथल के गांव पाडला निवासी जसबीर सिंह जस्सा को अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

डीएसपी मुख्यालय सुभाष चंद्र ने बताया कि गांव भादसों स्थित पिकाडली एगो इंडस्ट्री के वाइस प्रेजिडेंट सुनील कुमार ने 28 जून 2020 को पिहोवा सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी शराब कंपनी का एक ब्रांड मस्ती माल्टा है। जिसका डुप्लीकेट मार्का लगाकर एल-14 पिहोवा पर नकली शराब बेची जा रही है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच एसआइ रामप्रकाश को सौंपी। बाद में जांच पुलिस की अपराध शाखा दो प्रभारी मलकीत सिंह को सौंपी गई। मलकीत सिंह के नेतृत्व में एसआइ जीत सिंह, मुख्य सिपाही दीपक कुमार, जयपाल, सिपाही श्रवण सिंह व चालक इंद्रजीत सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपित चीका की वकील कालोनी निवासी रमेश कुमार उर्फ मैसी को बस अड्डा पिहोवा से गिरफ्तार किया था। पुलिस टीम ने जांच को आगे बढ़ाया। आरोपित रमेश कुमार से मिली जानकारी के आधार पर एसआइ जीत सिंह, बलवंत सिंह, एसआइ जयपाल, सतनाम, मुख्य सिपाही दीपक कुमार, संदीप व चालक बलविद्र सिंह की टीम ने आरोपित शाहाबाद के स्टेशन माजरी निवासी दीप चंद उर्फ दीपा व कैथल के गांव पाडला निवासी जसबीर उर्फ जस्सा को गिरफ्तार किया। आरोपितों को अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

Source: <https://www.jagran.com/haryana/kurukshetra-two-more-accused-of-selling-liquor-by-putting-fake-labels-arrested-21436501.html>